



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 माघ 1945 (श10)
(सं० पटना 133) पटना, मंगलवार, 13 फरवरी 2024

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

19 जनवरी 2024

सं० 1स्था0-08/2024-238/वि0स0—सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना की अधिसूचना सं०-19300, दिनांक 13.10.2023 एवं अधिसूचना सं०-636, दिनांक 10.01.2024 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत उच्चतर पद का प्रभार देने हेतु मूल कोटि की वरीयता के आधार पर अनुवादक संवर्ग में **श्री मो० इनसान अली**, उर्दू सहायक, बिहार विधान सभा सचिवालय को सहायक निदेशक (अनुवादक) के विहित वेतनमान (वेतन स्तर-9) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता है।

2. यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना की अधिसूचना सं०-19300, दिनांक 13.10.2023 एवं अधिसूचना सं०-636, दिनांक 10.01.2024 में निहित शर्तों के अध्वधीन है।

3. उपर्युक्त पदाधिकारी द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक सहायक निदेशक (अनुवादक) (विहित वेतनमान-वेतन स्तर-9) में उत्क्रमित किया जाता है।

4. उपर्युक्त पदाधिकारी को पदभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक निदेशक (अनुवादक) के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

5. इस अस्थायी कार्यकारी व्यवस्था के तहत वेतनमान सहित दिये जाने वाले प्रभार संबंधी आदेश में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर उस हद तक आदेश में संशोधन कर दिया जाएगा तथा संबंधितों को भुगतान की गयी राशि में से अंतर राशि एकमुस्त लौटा लिया जाएगा।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,
असीम कुमार,
निदेशक।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 133-571+10-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>